

### निविदा आमंत्रण सूचना

सीएसआईआर या इसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के लिए कार्य करने वाले तथा समान कार्य (तालिका में उल्लिखित) को करने का अनुभव रखने वाले तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग/रेलवे/एमईएस/बीएसएनएल (डाक व तार विभाग) की समुचित श्रेणी की फर्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

(क) 31 मार्च को समाप्त विगत वित्त वर्ष से पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्यान रखरखाव के कार्यों पर औसत वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% हो।

(ख) निम्नलिखित कार्य के समान कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का, इस आवेदन को आमंत्रित करने के माह की अंतिम तिथि से एक माह पूर्व तक न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव हो।

1. समान प्रकृति के तीन कार्य जिसकी धनराशि अनुमानित लागत के 40% से कम न हो। या
2. समान प्रकृति के दो कार्य जिसकी धनराशि अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।
3. समान प्रकृति का एक कार्य जिसकी धनराशि अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

निम्नलिखित कार्य के लिए आवेदन करने की इच्छुक फर्म आय कर विभाग के प्रमाण-पत्र तथा उपर्युक्त शर्तें पूरी करने के प्रमाण सहित आवेदन करें। ठेकेदार को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसे किसी प्राधिकारी द्वारा निविदा देने के लिए विवर्जित (Debar) नहीं किया गया है। निम्नलिखित कार्य की अनुमानित लागत राजस्थान सरकार की न्यूनतम मजदूरी दरों पर आधारित हैं। कार्य का विवरण निम्नवत है :-

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	बयाना राशि (रु. में)	निविदा लागत (रु. में)	पूर्णता अवधि	अंतिम तिथि व समय		निविदा जमा करने तथा खोलने की तिथि व समय
					आवेदन प्राप्त करना	निविदा दस्तावेज जारी करना	
1. सीरी, पिलानी में वार्षिक उद्यान रखरखाव का कार्य ।	21.335	42700/-	500/-	12 माह	27.4.16 से 6-5-2016	28.4.16 से 9-5-2016	11.5.2016

लगातार...2.

उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा उपर्युक्त तिथि के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान सायं 6-00 बजे तक लिखित आवेदन पत्र के साथ पैन/टैन नम्बर की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित प्रस्तुत करने पर निविदा जारी की जाएगी। लिखित आवेदन के साथ निदेशक, सी.एस.आई.आर.-सीरी, पिलानी के पक्ष में देय निविदा लागत संबंधी चालान/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए।

निविदा मुहरबंद लिफाफे में उपर्युक्त तिथि को सायं 3 बजे तक प्रशासन नियन्त्रक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी(राजस्थान) को भेजी जाए। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन सायं 3.30 बजे प्रशासन नियन्त्रक, सीएसआईआर-सीरी, पिलानी के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएँगी। निविदा लागत अप्रतिदेय (Non-refundable) है।

निदेशक, सी.एस.आई.आर.-सीरी, पिलानी के पास किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदा आमंत्रण सूचना संस्थान की वेबसाइट [www.ceeri.res.in](http://www.ceeri.res.in) पर भी उपलब्ध है।